

Petronet LNG Limited

Regd. Office: World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi – 110001
Phone: 011-23411411, Fax: 011-23472550, CIN: L74899DL1998PLC093073
Email: investors@petronetlng.com, Company's website: www.petronetlng.com
PAN: AAACP8148D GST: 07AAACP8148DIZI

CS/PLL/Listing/2020

11th August,2020

The Manager BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai – 400 001 The Manager National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra East, Mumbai – 400 051

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisement regarding notice of Board meeting

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clipping with respect to Notice of Board Meeting published in Hindustan Times and Mint (English) and Hindustan (Hindi) on 11th August, 2020.

This is for information and records please.

Thanking you.

Encl: as above

Yours faithfully

(Rajan Kapur) CGM & VP-Company Secretary

वाहनों की बिक्री में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र-गुजरात को पीछे छोड़ा

रिपोर्ट

नई दिल्ली | एजेंसी

देशभर में लॉकडाउन से राहत मिलने के साथ ही वाहनों की बिकी पटरी पर क साथ हा पाहना का विक्री पटरा पर लौटती दिख रही है। गाड़ियों की बिक्री जून के मुकाबले जुलाई में बढ़ी है। इसमें उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रही है। देश के शीप 10 राज्यों में उत्तर

प्रदेश वाहनों की बिक्री बढ़ाने में पहले पायदान पर रहा है। उत्तर प्रदेश में जुलाई में 19,185 वाहनों की बिक्री हुई। वाहन डीलरों के संगठन फाडा ३२१ जार १ जार १ जार प्रदेश ने महाराष्ट्र के मृताबिक, उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़ा है।

यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट

फाडा के अनुस्पार, जुलाई 2020 में यात्री वाहनों की खुदरा बिकी 1,57,373 इकाइयां हुई, जो बीते साल जुलाई के मुकाबल 25.19 फोसर्टी कम है। इसी तस्द संपाहिया वाहन श्रेणी में जुलाई की बिक्की 37.47 प्रतिशत गिरकर 8,74,638 वाहन रही। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री जुलाई में 72.18 प्रतिशत घटकर 19,293 वाहन रही जो पिछले साल 69,338 वाहन थी। तिपहिया वाहनों की बिक्री इस दौरान 74.33 प्रतिशत गिरकर 15,132 वाहन रही जो पिछले साल 58,940 वाहन थी।

अगस्त महीने में और सुधार की उम्मीद

काडा के प्रेसिस्डेंट आशीष हर्षजज काले ने कहा कि लींकडाउन में लगातार दील देने से जुलाई में जुन के मुकाबले वाहनों का ज्यादा प्रजीयन हुआ है लेंकिन पिछले सात की समा उत्तर बार्चिय के मुकाबले का भी मामान्य तर के करीब नहीं पहुंच पाया है। हालांकि, मानसुन के कारण ग्रामीण बाजां में देक्टर, छोटे कमशियल लेकिन और मोट्साइकिन की असकी होंगे दोनी जान ही है। अमस्त के बारे में उन्होंने कहा कि जुलाई के मुकाबले ज्यादा बिक्री हो सकती है।

मारुति सुजुकी ने बाजी मारी

जारा के आज़ों के मुताबिक, वाहनों की बिक्री के मामले में मारुति सुजूकी बाजार की अग़की कैमनी बनी हुई है। जुनाई में उसकी बाजा हिस्सेवारी 50.4 की स्वीद की असके बार सुकेड़ में पर इडिया की बाजा हिस्सेवारी है। 60 की स्वीद से टाटा मोरूर्स के पास 8.1 की स्वीदी, महिंदा एंड महिंदा के पास 4.96 की स्वीद किंडा में महेद के पास 4.5 की स्वीद, में के का जा 3.16 की स्वीद, टीटाव किलोंक्कर में स्वाद के पास 4.79 की स्वीद की स्वाद है।



हिस्सेदारी है वाहन बिक्री में 10 राज्यों की

36% कुल वाहन बिक्री घटी इस साल जुलाई में

जुलाई में वाहनों की बिक्री के लिहाज से शीर्ष 10 राज्य

01	उत्तर प्रदेश	19185
02	महाराष्ट्र	16149
03	गुजरात	14331
04	हरियाणा	12162
05	कर्नाटक	11107
06	राजस्थान	10930
07	दिल्ली	9817
08	तमिलनाडु	9001
09	केरल	8785
10	पंजाब	6783

एक वेबनार को संबोधित करते हुए

गडकरी ने कहा कि हमें भारत का निर्यात

01	उत्तर प्रदेश	19185
02	महाराष्ट्र	16149
03	गुजरात	14331
04	हरियाणा	12162
05	कर्नाटक	11107
06	राजस्थान	10930
07	दिल्ली	9817
08	तमिलनाडु	9001
09	केरल	8785
10	पंजाब	6783

ं वाहनों व ज से शीर्ष		INDIGO INSTITUTE OF TEC	WEEN CHNOLOGY DELHI (IIT Delhi) ND JTHORITY OI . (NHAI)
राज्य वाहन	न बिक्री	nate Room	6th Au
उत्तर प्रदेश	19185	7	
महाराष्ट्र	16149		- W - S
गुजरात	14331	The state of the s	
हरियाणा	12162	नई दिल्ली में एनएचएआई के चेयरमैन ए निदेशक वी.राम. गोपाल राव ने एक सम	
कर्नाटक	11107		
राजस्थान	10930	एनएफएल ने उर्वरकों	रेलटेल और इरकॉन ने
दिल्ली	9817	की रिकॉर्ड बिक्री की	समझौता किया
तमिलनाडु	9001	नई दिल्ली। एनएफएल ने अप्रैल-	नई दिल्ली। रेलटेल और इरकॉन

कॉर्पोरेट कॉर्नर

नई दिल्ली। एनएफएल ने अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान उर्वरकों की बिक्री की नई ऊंचाईयों को छूते हुए 18.79 लाख मी.टन की कुल बिक्री की है, जो गत वर्ष की इसी अवधि के काह, जाना प्रच का इसा जवाय के दौरान 15.64 लाख मी.टन की बिक्री से 20% अधिक है। इसमें यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके, एसएसपी तथा बेंटोनाइट सल्फर की बिक्री शामिल है।

सागरदिघी परियोजना में भेल ने कार्य शुरू किया

नई दिल्ली। भेल ने पश्चिम बंगाल में 660 मेगावाट की सागरडेजी सुपरक्रिटिकल धर्मल पावर परियोजना में नागरिक कार्यों की शुरुआत की है। गौरतलब है कि परियोजना के लिए पूर्व-इंजीनियरिंग गतिविधियों के रणनीतिक समापन के बाद से ही, जीरी डेट पर ही ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हो गई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह परियोजना लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये की है।

किए। वह समझाता एक एसा सरचना बनाने का प्रस्ताव करता है, जिसमें इरकॉन और रेलटेल एक-दूसरे की सेवाओं का वितरण, अनुरक्षण और उपयोग करने के लिए सहयोग करेंगे। महिला सशवितकरण में आरईसी सबसे आगे

इंटरनेशनल ने इरकॉन के उपयोग के लिए रेलटेल द्वारा डिजिटल / आईसीटी सेवाओं का प्रावधान कराने

हेत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

किए। यह समझौता एक ऐसी संरचना

नई दिल्ली। आरईसी लिमिटेड ने वुमन अचीवर्स समिट एंड अवार्ड्स 2020 में 'बेस्ट ऑगनाइजेशन फॉर वुमन एम्पावरमेंट' अवार्ड प्राप्त किया। इस दौरान कई सफल अभियानों प इस दौरान कइ सफल आभवाना पर आरईसी के कॉपीरेट संचार और जनसंपर्क टीम का नेतृत्व करने के लिए 'मेंटर ऑफ द ईयर इन कॉर्प कॉम' के रूप में कल्पनाकुल, कार्यकारी निंदेशक - कॉपीरेट संचार और जनसंपर्क सम्मानित किया गया।

हुडको का यमुना औद्योगिक प्राधिकरण से करार

विस्ता हा उसिंग एंड अर्बन डेब्लपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एम नागराज और यमुना एक्सप्रेसचे औद्योगिक विकास प्राप्तिकरण के सीईओ डॉ अरुणवेरि सिंह के बीच जेवर, उत्तर प्रदेश में आगमी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी विविच्य परियोजनाओं के लिए चार हजार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहारता प्रदान किए जाने पर समझीता ज्ञापण एक इसाई अड्डे से लिंग के स्वत्य प्रदान किए जाने पर समझीता ज्ञापण एक इसाई कार्य के वित्तीय संवत्य किए जाने पर समझीता ज्ञापण एक इसाई अपनि स्वत्य के वित्ती और पूर्णि अपना कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्य क्रिक्ट कर्योक्त क्रियों क्रिक्ट की अधिग्रहण, औद्योगिक संपदा विकास, इलेक्टॉनिक सिटी, आवासीय परियोजनाए और उनसे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल होंगे।

संसदीय समिति ने भी की है सिफारिश. श्रम संगठन कई साल से कर रहे मांग

ग्रेच्युटी पाने के लिए पांच



नई दिल्ली | एजेंसी

देशभर के निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी वाल लाखी कमचारिया के लिए अच्छी खबर है। जल्द हों ग्रेच्युटी पाने के लिए पांच साल की शर्त खत्म होगी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पात्रुता शर्तों में ढ़ील देने पर विचार कर रही है। सरकार ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा एक से तीन साल करने पर विचार कर रही है।

. २०११ - ग्रेच्युटी को लेकर काफी समय से श्रम संगठन इसकी अवधि घटाने के लिए अपील करते आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा समय में औसतन एक कंपनी में काम करने का समय तीन साल के करीब रह गया है। ऐसे में नौकरी छोड़ने पर कर्मचारियों को नुकसान होता है। सूत्रों का कहना है कि श्रम मंत्रालय जल्द फैसला ले सकता है।

ऑनलाइन सूचना

ले सकेंगे निवेशक

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल

इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी)

के बारे में परी अद्यतन जानकारी के

क बार म पूरा अद्यात जानकारा का लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड शुरू करिया इसके जारिये संबंधित पक्ष देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में ताजी सुचना प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन डैशबोर्ड को इंडिया इनवेस्टमेंट प्राप्त (आईआईजी) पर होस्ट किया जा रहा है।



श्रम पर बनी संस्वीय समिति ने हाल श्रम पर बनी संस्वीय समिति ने हाल हो में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्रेंच्युटी भुगतान के पात्रता की वर्तमान पांच साल की समय-सीमा को घटा कर एक साल किया जाना चाहिए। बता दें कि किसी

कब मिलती है ग्रेच्युटी?

कर्मचारी को किया जाने वाला ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी में कर्मचारी के काम

अति अल्प कालीन निविदा सूचना

प्रविधास के स्थित किया जाता है कि ग्राजियाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत वितास के १०२०-२१ में 1860 आरठसी०सी० फिल्स फेंग्रिया पोक्ट) एवं 5,357 टन कॉटेटा तार

कर्मचारी नौकरी छोडने के बाद

ग्रेच्यूटी निकालने के लिए आवेदन कर सकता है।

िनयमों के तहत मौजूदा समय में
आवेदन करने की तारीख से 30 दिन के अन्दर उसे भुगतान कर दिया जाता है।

अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे ग्रेयुटी चाहि। पद साधारण ख्याज की दर से ख्याज का भुगतान भी करना होता है। कर सकता है।

ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के मुताबिक, ग्रेच्युटी की रकम अधिकतम 20 लाख रुपए तक हो सकती है। ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी को एक ही कंपनी में कम से कम पांच साल तक नौकरी करना अनिवार्य है। इससे कम वक्त के लिए की गई नौकरी की रिथति में कर्मचारी पात्रता नहीं रखता। यानी चार साल में नौकरी छोड़ने पर ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।

बचाने के लिए कर्मचारियों को पांच साल से पहले ही हटा देती है ताकि गेच्यटी की लागत बच जाए। अब दो

या तीन साल ही बेहतर विकल्प है।

नियमों के मुताबिक पात्रता

ग्रेच्युटी क्या है?

प्रास्तुद्धित विद्या है ? अच्छी किसी कर्मवासियों को मिलने वाला एक पूर्व -परिमाशित लाम है। अगर कर्मवासी नौकरी की कुछ शतों को पूर्व करना है है को गुझुटी का मुगतान एक निर्वासित फॉर्मुले के तहत गाररिंड तर्म पर उसे का किसी सरसान में रामातर पाव साल कम्म करते हैं तो अपका मेळूदी का कम्म करते हैं तो आपका मेळूदी का वाव करने और उसे हासिल करने का अधिकार है।

छोटे कारोबारियों को राहत देने की तैयारी: गडकरी

नई दिल्ली | एजेंसी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार भूमि बैंक और सामुदायिक सूक्ष्म वित्त संस्थान बनाने जैसे विचारों पर काम कर रही है। ताकि लोगों के छोटी दुकानों और कारोबारों को चलाने में मदद की

.. र. । . उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित

एजीआर मामले में सुनवाई टली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में सुनवाई टल गई। अब मामले मामल म सुनवाई टल गई। अब मामल की अगली सुनवाई 14 अगस्त, 2020 को होगी। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट से देनदारी के लिए 10 से 15 साल के

जस्टिस मिश्रा ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मेहता से कहा कि वह उन्हे सूचित करें कि एजीआर की वसूली वे लिए सरकार के पास क्या योजना है।

तीव्र सेवा अपनाये और

किफायती दामों पर अपने पार्सल की शीघ्र डिलिवरी पहुँचायें



गैर-पारंपरिक कार्गी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बिजनेस डवलेपमेंट युनिट्स (बीडीय)

इन यूनिट्स को विमिन्न उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि पारस्परिक लाभ हेतु उपयुक्त रेल परिवहन सुविधाओं की पेशकश कर उन्हें किफायती रेल परिवहन चुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।

ाकफायता रच पारवहन चुनन का लए प्रात्साहित कर सक। इस संबंध में उत्तर रेलवे इस कम माल के लिए समय पर में उत्तर रेलवे द्वारा एक बड़ी पहल यह की जा रही है कि पूर्ण रेल लोड से कम माल के लिए समय पर मारानाहियों का संचालन किया जा रहा है। इस सेवा को "तीव्र सेवा" (Timetabled Efficient and Economically Viable Railway Services/समयबद्ध समस और आर्थिक रूप से व्यवहार्य रेल सेवाएं) का नाम दिया गया है और विमिन्न प्रार्यम-नॉलव स्टेशनों के बीच सम्पद्ध समस परिवहन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। माल भेजने वाले ग्राहक वैगन आधार पर बुकिंग कर संकेंगे।

इच्छुक व्यापारिक संस्थाएं किसी भी पूछताछ, सुझाव या सहायता के लिए बिजनेस डवलेपमेंट यूनिट्स (बीडीयू) के निम्नलिखित नोडल कार्डिनेट्स से संपर्क कर सकती हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय	संपर्क नम्बर
01	मुख्य माल भाड़ा प्रबंधक	उत्तर रेलवे, मुख्यालय कार्यालय,	011-23387643,
	उत्तर रेलवे	बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली	9717630903
02	वरिष्ठ मंडल परिचालन	दिल्ली मंडल, डीआरएम	011-23743352,
	प्रबंधक, नई दिल्ली	कार्यालय, नई दिल्ली	9717631900
03	वरिष्ठ मंडल परिचालन	लखनऊ मंडल, डीआरएम	0522-2234520,
	प्रबंधक, लखनऊ	कार्यालय, लखनऊ	9794833900
04	वरिष्ठ मंडल परिचालन	मुरादाबाद मंडल,	0591-2412012,
	प्रबंधक, मुरादाबाद	डीआरएम कार्यालय, मुरादाबाद	9760534900
05	वरिष्ठ मंडल परिचालन	अम्बाला मंडल, डीआरएम	0171-2610553,
	प्रबंधक, अम्बाला	कार्यालय, अम्बाला	9729539900
06	वरिष्ठ मंडल परिचालन	फिरोज़पुर मंडल,	01632-24448,
	प्रबंधक फिरोजपर	डीआराम कार्यांच्या फिरोज़पर	9779232900



मौजदा नियम से नकसान जाजूदा जियन स जुणसाज अम विशेषज्ञों ने भी कहा कि ग्रेच्युटी के लिए पांच साल की सीमा पुरानी है और अब ये कर्मचारियों के हित में काम नहीं करती। श्रमिक संघों का दावा है कि कई कंपनी लागत को

साल की शर्त खत्म होगी



संसदीय समिति भी पक्ष में

करने के साल के आधार पर प्रति साल 15 दिन की सैलरी के आधार पर किया जाता है।

दिल्ली जल बोर्ड : रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (सी) डीआर.XI कक्ष सं. 308, वरणालय फेज-1, करोलवाग, नई दिल्ली-110005 हेलीफेक्स, 011-285548/7ई-मेल, eec(411.djb@nic.in

नि.आ.सू. सं. 01 (2020-21)

	(प्रस ानायदा)							
i.	कार्य का नाम	अनुमानित	ई-प्रापण प्रणाली में निविदा	ई-प्रापण प्रणाली के द्वारा निविदा				
t		लागत	निर्गमन की तिथि	की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि/समय				
	कोरोनेशन पिलर में 70 एमनीडी एसटीपी के उन्नयन हेतु परामर्श सेवाओं का प्रावधान।	एकमुस्त	07.08.2020 को 11.30 बने से निवद आईडी: 2020_DJB_193324_1	31.08.2020 को 15.00 बजे तक				
a	ग्रंटर्भ में अपन निकास टिक्की ग्रंटकर की नेव	mez https	//gov/throcurement delhi gov in W	रेख ग्रमते हैं। आग मोर्ड आग				

ज.सं. अधि. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. ज.सं.वि. 124/2020-21

2002-71 म 1860 आर्थाला पिरालं (क्षिति पोरंग) एवं 5.357 टन कांटियर तार की आर्था किया निकार कांट्रीय सार की आर्था किया निकार कांट्रीय सार की आर्था किया है। विविद्या के कर करने की अनिमा किया 12.08.2020 रख्यों मारी है। टिकर से सम्बन्धिका सिकरता जानकारी किसी भी कर्मा टिकर में सम्बन्धिका प्रमाण, मार्थियाला, मार्थियाला, मार्थियाला, मार्थियाला, मार्थियाला, मार्थियाला, मार्थियाला, मार्थ्याला, मार्थाला, मार्थ्याला, मार्याला, मार्थ्याला, मार्थ्याला, मार्याला, मार्याला, मार्याला, मार्याला, मार्थ्याला, मार्याला, मार् ाजियाबाद/विभागीय बेबसाईट, वन विभाग 10प्र0 से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कु-नाववदी आभग्नण सूचना वृद्धा भोषण काल्य पुराज्य के अंतिर्थ रै-विविद्धा संकल- देन 16/ (कार्य)/0200-2-रेन विवद्धा अंत्रेलवादा अस्मित को बाती है निविद्या मुख्य, स्वेतिर सीच आदि नावकरी है नेवसाहर अप्रकारी हमा की दिवा साम्या अस्मितार कारने का अधिकार आध्यात अस्मितार कारने का अधिकार आध्यात अस्मितार कारने का अधिकार अध्यात अध्यात स्वेतिर सुष्ट्राम साम्या क्रम्य पुराज्य के स्वी में निविद्या मुख्य स्वाप्त में की मार्थी। अध्यात्मा अधिकार अधिकार अध्यात अध्

आमंत्रित विशिष्टीकरण सं हेतु आमंत्रित विशिष्टाकरण राज्य पविविनिलि-एमटी/एमएम/ 4(एस),

खुली ई-निविदा सूचना:- 600 नग 63 केवी वितरण परिवर्तक की आपूर्ति पविविन्तिल प्पटी/एमएम/ 4(एस)/ 20-2। को अपरिक्षर्य कारणों से निरस्त किया जाता है। विस्तार से सभी जानकारी हेतु www.pvvnl.org एवं E-T e n d e r i ng we b s it e www.etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करें। अधीक्षण अभियन्ता (सा.प्र.

पश्यमायल । उ वितरण निगम लि.

अनि करें। अविक्षण अभियन्ता (सा.स.)

- प्रथम) पविविचित्ति, ऊर्जा भवन,
विवटोरिया पार्क, मेरठ। राष्ट्र हित में
विजली बचाये, बिजली चोरी की सूचना हैन्यलाइन नं.—1800—180—3002 (भैरठ) व 9412207451 पर वें। पत्रांक: 6969, विनांक 10.08.2020

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कार्यालयः वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बावर रोड, बाराखम्बा लेन फोनः 011-23411411, फैक्सः 011-234725 सीआईएनः L74899DL1998PLC093073 इमेल: investors@petroneting.com कम्पनी की वेबसाइट: www.petroneting.com पैन: AAACP8148D, जीएसटी: 07AAACP8148D1ZI

सूचना

रेडू चाना में सेवी (मुचीरन, दावित्व और प्रकटीकरात अवारक्तकाओं) विनित्सी, 2015 के प्रावकां के अनु एसद्वादम मुंगित किया जात है कि कमानी के रिशेतक संवत्न को बैठक, नई दिल्ली में सीस्प्रास, 17 2020 को, अन्य जातों के साथ-साथ, 30 चून 2020 को, सम्पन तिसासी हेनु कमानी के असैर वितीय परिपाली पर विचार करने तथा उन्हें रेसीकृत करने के लिए होंगी।

के प्रशासन के जिल्ला है। ते प्रशासन के प्रशासन के दिखा की दे (प्रीराज्य के जोई) और दर्शन स्थान में जोई जो का प्रशासन के प्रशासन के

अपनेकत की दुष्टि से, पीएलएल की प्रतिभूतियों में व्यापार हेतु ट्रेडिंग विन्डों जो 1 जुलाई 20 दी गयी थी, 19 अगस्त 2020 तक (दोनों दिन शामिल) वंद रहेंगी। सभी इनसाइडर्स को स कि इस अवधि के दौरान पीएलएल की प्रतिभृतियों के साथ लेन-देन न करें। गनकारी कम्पनी की वेबसाइट www.petroneting.com पर गे के शेवर सूचीबद्ध किए गए हैं, की वेबसाइटों यानी https://ww

https://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पुरोला (उत्तरकाशी) िनिविदा सूचना संख्या- 02/ई0ई0/2020-21 ई-निविदा सूचना महामहिन राज्यमाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधिशासी अगियन्ता, सि

	खण्ड में स्तम्भ-7 में अंकित श्रेणी में पंजीकृत ह	तेना अनिवार्य				
स्र	- कार्य का नाम	धरोहर	निविदा	निविदा की		सिविल कार्या
1 440		थनराशि	प्रपत्र का	येथता	करने की	की वॉधित
1		लाख रू० में	भूत्य (२५०)	अवधि	अवधि	श्रेणी
1	2	3	4	5	0	7
1	जनपद उत्तरकाशी के नीगांव विकासखण्ड के अन्तर्गत वमुनोत्री धाम में क्षविग्ररत रनानघाट के पुर्नरथापना कार्य की योजना।	1.50	4000.00 + 18 % GST	90 दिन	16 माह	रिश्चाई विभाग में "सी' एवं उच्चतर श्रेणी में

ई-मिनिटा के माध्यम से निविदा आमंत्रण की तिथ्नि- 25-07-2020 ई-निनिदा के माध्यम से निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय- 10-08-2020, निविदाओं से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी हेतु उत्तराखण्ड शरकार की वेबसाईट <u>www.uki</u> बोगाओं करें

पत्रांक- 12603/ स.एवं लो.सं.वि./दि. 10.08.2020

कार्यालय - नगर पंचायत फरीदनगर, (गाजियाबाद)

त्रांक: 222/न0पं0फ0/2020-2021 :अल्पकालीन निविदा सूचना:

नगर पंचावता करिटनार जनवर मानियाबाद द्वारा राज्य विता आयोग के प्रात्मकालीन मानवार मुख्यान.

जन्म पंचावता करिटनार जनवर मानियाबाद द्वारा राज्य विता आयोग के प्रात्मक के अंतर्गत किना किना करायों के सम्पादन हैन्।

अनुभवें कैक्योगि प्याप्त में दिश्लेक 1.08.2020 को सांस्यार निवारण आयोगि स्त्री कार्य है। शिक्षा प्रवार हिलां छ 7.08.2020 को अस्याद 0.200

जन कार मानवार करिटनार के अस्योगि कारण करिटनार के सिर्विकेट के स्त्रा सांस्यान के हिलां किटा 2.002 को अस्याद 0.200

जन कार पायाचा करिटनार के अस्योगि में रिवारण करिटनार से प्रार्थ करिटनार है। शिक्षा दिश्लेक 18.08.2020 को अस्याद 0.300 को अस्याद 0.300 को अस्याद करिटनार के अस्यात करिटनार के स्त्री स्त्रीयों । शिक्षा है ग्रात्म के प्रतिक स्त्रीय के अस्याद 0.300 को अस्याद 0.300 के अस्याद 0.300 को अस्याद 0.300 के अस्याद 0.3

संबंधित निर्माण कार्या का जानकार। जिल का वबसाइट Http://www.gnaziabau.nic.in पर उपलब्ध है। कार्या का विवरण निस्न है।					अरण ।नम्न ह।
क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा धनराशि (18 प्रतिशत	कार्य अवधि
				जी.एस.टी. सहित)	
01.	विद्यालय के कायाकल्प के अंतर्गत वार्ड नं0 7 प्राथमिक	4,98,163/-	49,816/-	500.00	01 माह
1	विद्यालय में मरम्मत, पेयजल आपूर्ति, फ्लोर टाईल्स एवं				
1	किचन जीणोंधार, विद्युतीकरण, रंगाई-पुताई, शौचालय				
1	गार्व गायावार आणि वहा जिससा वहार्थ ।				

निविदादाता को निविदा के साथ अंकन 100/- रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर रापथ पत्र देना अनिवार्य है। ावायदाता को ताबरों के साथ ओक 1001- है. को तो न्यूनातम्बार होटमा प्रथा ए ए एसीहाई कह राज्य पे दर्श आनावाय है। विशेषदाताको निविद्यात के प्रथा के प्रथा प्रथा होतिया हुआ ने प्रतिप्रदेश किए प्रति के प्रथा ने न्यूना है। अपने की स्थान के रिवाद कर दे जानीयों प्रति कोला करता आविद्यार है। अपने की सिवाद में ही सिवाद निरस्त कर दो जानीयों केन काने में निवाद करता के प्रशास के प्रथा करने की साथ प्रशास करने पर रिवाद पर्मा जानी किया जानेया। विश्वाद हात्र किसी भी प्रकार को निर्माण सामानी अपना मानीनी तिर्मत नहीं को जानेये। समस्य प्रकार के रेक्सो करों आदि का उत्पादनिक्य संबोधनेत टेकेटर का होता। समस्य प्रकार के रेक्सो करों आदि का उत्पादनिक्य संबोधनेत टेकेटर का होता। किसी एक या समस्य निविद्यों को विश्व करण बात्रों निरस्त करने का अधिकार अधीवस्ता के पास चिति है।

कार्य का भुगतान बजट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। . करने का नुभाग बंबर उपलब्धा के आवार पर राज्य आपया. 7 किपोरित अकियें में अंकर में पूर्व कार के देता में संबंधिक डेकेटर/फर्म को व्येक्शिसट करने पर विचार किया जायेगा। 0. कार्य मानक के अनुरूप ना पारो जाने पर ठेकेटर/फर्म का पुनतान रोक दिया जायेगा। 1. विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत कर्यांतव से प्राप्त की जा सकती है।

(विपिन कुमार सिंह सेंगर) अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फरीदनगर

नगर पंचायत फरीदनगर

बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने को लेकर विचार करने की भी जरूरत है।चीन के निर्यात के बारे में गडकरी ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्थ गडकरा न कहा कि विश्व अवव्यवस्था का कुल 30 प्रतिशत विनिर्माण चीन में होता है। करीब 10 ऐसी बड़ी निर्यात श्रेणियां हैं जो कुल निर्यात में 70 प्रतिशत हिस्सेदारीरखती हैं।इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और उपकर इत्यादि शामिल हैं। रिलायंस से बात

जारी:अरामको रिवाद। रिलायंस में निवेश को लेक बातचीत जारी सऊदी अरामको रिलावंस इंडस्ट्रीज में निवेश रह होने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में आई कमी के बावजूद

रिलायंस के पेटोकेमिकल्स कारोबार मे लंबे समय की मांग की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जिस्टस अरुण मिश्रा टेलीकॉम कंपनियों के रवैये से काफी नाराज लगे। 15 अरब डॉल्र निवेश के सौदे पर बातचीत जारी है।

. गैर-पारंपरिक कार्गों में रेल परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, जोनल मुख्यालय में और सभी पांच मंडलों अर्थात् (दिल्ली, अंबाला, लखनक, मुरादाबाद और फिरोजपुर) में विशेष बिजनेस खत्रलेपमेंट यूनिट्स स्थापित की गई हैं।

उत्तर रेलवे की इस पहल का उद्देश्य एम.एस.एम.ई. और अन्य लघु उद्योगों तथा ईकाइयों को किफायती समयबद्ध माल ढुलाई सेवाएं प्रदान करना है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय	संपर्क नम्बर
01	मुख्य माल भाड़ा प्रबंधक	उत्तर रेलवे, मुख्यालय कार्यालय,	011-23387643,
	उत्तर रेलवे	बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली	9717630903
02	वरिष्ठ मंडल परिचालन	दिल्ली मंडल, डीआरएम	011-23743352,
	प्रबंधक, नई दिल्ली	कार्यालय, नई दिल्ली	9717631900
03	वरिष्ठ मंडल परिचालन	लखनऊ मंडल, डीआरएम	0522-2234520,
	प्रबंधक, लखनऊ	कार्यालय, लखनऊ	9794833900
04	वरिष्ठ मंडल परिचालन	मुरादाबाद मंडल,	0591-2412012,
	प्रबंधक, मुरादाबाद	डीआरएम कार्यालय, मुरादाबाद	9760534900
05	वरिष्ठ मंडल परिचालन	अम्बाला मंडल, डीआरएम	0171-2610553,
	प्रबंधक, अम्बाला	कार्यालय, अम्बाला	9729539900
06	वरिष्ठ मंडल परिचालन	फिरोज़पुर मंडल,	01632-24448,
	प्रबंधक, फिरोजपुर	डीआरएम कार्यालय, फिरोजपुर	9779232900

उत्तर रेलवे

आपकी सुविधा - हमारा ध्येय

PM Modi reviews situation in six flood-affected states

ALARMING Bihar flags Nepal's non-cooperation in maintaining embankments on other side

HTC & Agencies

PATNA/NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Monday underlined the need for better coordination between the central and state agencies to have a per-manent system for forecasting of floods. He also stressed on extengies for improving the forecast

and-warning system.
The PM made these remarks during a virtual meeting with the chief ministers and representa-tives of six states to review the flood situation in various parts of

flood situation in various parts of the country.

The states that attended the meeting, which was convened to review their preparedness to deal with the southwest monsoon and the current flood situation, were Assam, Bihar, UP, Maharashtra, Karnataka and Kerala.

Karnataka and Kerala.

A statement from the Prime
Minister's Office (PMO) said at
the meeting, Modi highlighted
that the investments in localised early warning systems should be increased so that the people of an area can be cautioned on time in case of a threatening situation

Bihar chief minister Nitish Kumar drew the Prime Minis-ter's attention to how Nepal did not cooperate in carrying out



Prime Minister Narendra Modi during a virtual meeting to review the flood situation in six states, in New Delhi on Monday.

annual maintenance work on embankments falling on the other side of the International Border, across Burbhanga and Mathepura districts, and also pitched for the removal of 25% capontheamount to be spentfor extending gratuitous relief to affected people intimes of natural calamities. Hesaid: "Floods in north Bihar are invariably caused by heave."

Hesaid, "Floods in north Bihar are invariably caused by heavy rainfall in the catchment areas of rivers originating from Nepal. But in the absence of required co-operation from the neighbour-ing country, despite reaching out on an official level, embankment repair works could not be com-pleted on schedule in May and got extended to June-end this year." Meanwhile, the Maharashtra government demanded setting up of a committee for tackling crisis situations in states and ensuring a better coordination. Chief min-ister Uddhav Thackeray sought an immediate central assistance an immediate central assistance for Maharashtra in view of the June 3 Cyclone Nisarga that caused widespread damage in the state's coastal districts. The Karnataka government said it requested the prime minis-ter to provide an additional spe-cial assistance of \$4,000 crore to benefit the food in the food in the constitution.

state for home Nityanand Raiand G Kishan Reddy, and senior officers of the central liministries and organisations concerned. The prime minister asserted that in viewoff the Covid-19situation, the states must ensure that people follow all health precautions such as wearing of face masks, hand santisation and maintaining an adequate physical distance, with each other

cal distance with each other while undertaking rescue efforts. Modi said the states should ensure that all development and

ensure that all development and infrastructure projects are built with resilience to withst and local disasters and help reduce the consequential losses. The prime minister pointed out that over the last few years, forecasting agencies such as the India Meteorological Department and the Central Water Commission are making concerted efforts to make better and more usable flood forecasts. Pilot projects are underway tous innovary tous usanie floodforecasts. Pilot pro-jects are underway to use innova-tive technologies to improve the location-specific forecasts, for which the states should provide the necessary information to these agencies and disseminate warnings to the local communi-ties, Modi said. "The prime minis

BAGHJAN FIRE RAGES ON



Another attempt to cap the blowout of an Oil India Limited natural gas well, which has been on fire since June 9 in Assam's Tinsukia, failed on Monday due to technical issues Operations will resume after necessary rectification.

INDIA-CHINA TENSION

'De-escalation may take longer, Army prepared'

NEW DELHI: Top brass of the Indian military including Chief of Defence Staff general Bipin Rawatinformed a committee of lawmakers on Monday that the de-escalation in Ladakh, where de-escalation in Ladark, where Chinese troops transgressed in June, forcing India to deploy heavily along the Line of Actual Control, may be a long-drawn process but that the Indian armed forces is prepared for it and has made all arrangements for troop deployment in the harsh winter.

The top general and three-star Generals who attended the

star Generals who attended the meeting also emphasised that the Indian armed forces is prepared to face any onslaught but at the same time efforts are also on to bridge the trust deficit with China, whose transgression resulted in a bloody conflict sion resulted in a bloody comment in Galwan valley on June 15 that left 20 Indian soldiers including a colonel, and an unspecified number of Chinese soldiers TOP BRASS EMPHASISED THAT THE ARMY IS PREPARED TO FACE ANY ONSI AUGHT BUT EFFORTS ARE ALSO ON TO BRIDGE THE TRUST

dead. Apartfrom Gen. Rawat, at least four three-star Generals including Vice Chief of Indian army, Lt. Gen S K Saini were also present.

also present.

Reversing the trust deficit created by the brutal clash at Galwan Valley will also be enormously hard, and it is expected to be an impediment to the disengagement and de-escalation processes, HTreported on July 3.

3.
Military negotiations with
China have hit a roadblock due
to the Chinese People's Liberation Army's reluctance to
vacate positions held by it in
what New Delhi claims as
Indian territory.

SC to hear 6 BSP MLAs' transfer plea today

*introllendaturtivacum

NAWOBLE* The Supreme Court on
Tuesday will hear a petition by
six former legislators of the
Bahujan Samap Party (BSP) in
Rajasthandemanding the transfer of a petition seeking their disqualification from the Rajasthan
high court to the apex court.
The six members of the legisland
mergal with the Congress in 2019
for which they faced disqualification petitions filled by Bharattya
Janata Party (BJP) legislator
Madan Dilawar. Rajasthan
assembly speaker CP Joshi
rejected the disqualification
pleas on July 28.
This prompted Dilawar to
approach the Rajasthan high
court, which is seed notice to
stay the speaker's directive
Lar elated development the
Lar elated development the
Lar elated development the
Lar elated development the

THE SIX MLAS MERGED

WITH THE CONGRESS IN 2019 AND THEY FACED DISQUALIFICATION PETITIONS FILED BY BJP

high court to added as a party to the proceedings there. This matter is also listed on Tuesday when the IFC could decide helate of the six BSP MLAs—Sandeep Yddav (Thjara), Wajib Ali (Nagar), Despchant Kheria (Kishada), Despchant (Kis

minister Ashok Gehlot, who has

could be-crucial in the event chief minister Ashok Gehlot, who has faced a rebellion by former deputy chief minister Sachin Pilot and 18 other MLAs of his party. Faces a trust vote in the House. Faces a furst vote in the House. General control of the Compared for Dilawar before an appex bench of justices Arum Mishra, BR Gavai and Krishna Murari, Hesatidhe issuen flocus is whether the six MLAs could merge their party with the Consumption of the Co

supreme Court and they are not moving for listing it. Obviously they want to claim in HC that the matter is pending in the Supreme Court."

ourt." The six MLAs have sought a transfer on the grounds that the legal issues raised in Dilawar's petition before the HC are under consideration of the top court in

consideration of the top court in another case from Assam, in a case titled Mr. Mithou Krose v Intilemba Sangtam.

The bench directed that the petition be listed on Tuesday along with Dilawar's plea. According to Dilawar, the MiLAs ought to be disqualified on the grounds of defection under the theory of the control of the control ion, Salvesdad, Butthe skyMLAs have claimed that as per parahave claimed that as per para graph 4 of the Tenth Schedule when two-thirds of the members of a political party within the assembly merges with another in the House, the members will be immune from disqualification.

Kerala landslide toll at 48; 22 still missing

THIRUVANANTHAPURAM: The toll in Rajamalai landslide in Idukki district went up to 48 on Monday with the recovery of six more bodies while 22 are still missing, chief minister Pinarayi Vijayan said. He said some bodies were recovered from a river and rescue work still going on despite inclement

www.muhs.ac.in.

Date : 11/08/2020 Place : Nashik

questioned his delay in visiting the affected district, Vijayan said he will visit the spot at an appro-

those affected by landslide. What the government announced in the latter case is only an interim relief and it will be raised further. Some parties are whipping it up unnecessarily to create confu-sion among people," he said. Opposition Congress and BJP

Sd/ Registrar MUHS, Nashik

MAHARASHTRA UNIVERSITY OF Health Sciences Vani Road, Mhasrul, Nashik - 422 004.

Advt. No.05/2020 nline applications are invited for filling the following tenure posts and from University fund on purely temporary basis in the risity Research Department.

Professor & Associate Professor

Application in prescribed format should reach the University office through e-mail on or before 29/08/2020.

Petronet LNG Limited
Regd Office: World Trade Corine, Sabar Read,
Bardhambat Lane, Rev Bellin - 19981
Palene: 811-23411411, Faz: 611-2472559
CINE: L748991198PL: 059872
Famil: Imensiters'setenentina.com. Company's website: year, setenentina.com
PAH: AAACPF1480
SCT 277AAACPF148072
NOTICE
Notice is hereby given, pursuant to the
POSIGIATION OF PROJECTION OF PROJECTION

ended 50h June, 2020.

Pursuant to Code for Prevention of Insider Trading in the Securities of PLL (PLL's Code) as well as circular issued by the Stock Exchanges dated 2nd April 2019, it was informed to the Stock Exchanges vide letter dated 22nd June, 2020 that the Trading Window for dealing in securities of PLL would be locaed, for all Insider's as per PLL's Code, from 1st July, 2020 till 48 hours after the financial results for the quartie ended 50h June, 2020 would become generally available.

ended 30th June, 2020 would become generally available. In view of the above, the Trading Window for trading in PLL's securities, which was closed from 1st July, 2020 shall remain closed till 19th August, 2020 (both days inclusive). All insiders have been advised not to deal with the securities of PLL during this period. This internation is also available at the verbale of the Company at warve_electrading_oral and not her webside of the Stock Exchanges where the shares of the Company as a site of the Company at warve_electrading_oral and not her webside of the Stock Exchanges where the shares of the Company as site of the Stock and the stock that the share of the Company as listed it. https://www.beeindia.com and this 2-livew.

(Rajan Kapur) CGM & VP-Company Secretary

more details please visit to the University websit

had questioned discrepancy in relief in twin tragedies that struck Kerala on Friday. While the CMadamounced Stollakh relief for families of the dead in the plane crash, landslide victims were given only Rs 2 lakh. But Vijayan said the government will ensure rehabilitation of affected plantation workers. He also said rescue work will continue till the recovery of the last body.

recovery of the last body. But an official of the Kannan Devan Hills Plantation Limited,

which owns the estate, said it will be difficult to assertain exact number of people trapped in the landslide as some houses that market and the same house that are the same transport of the same tr

shine obs

WAPCOS Limited

WAPCOS Limited requires Manager (Corporate Affairs), Trainee Secretary & Dy. Manager (Legal). Interested candidates may please visit our website www.wapcos.co.in under career option for details and profoma. Further amendments, if any, shall be displayed on the official website

NORTHERN RAILWAY

Ministry of Railways, Government of India invites

MANAGING DIRECTOR (MD),
Centre for Railway Information Systems (CRIS)

For detailed advertisement, kindly refer to www.indianrailways.gov.in/railwayboard.

Applications (02 copies), along with enclosures may be sent to: Director (Deputation) Ministry of Railways (Railway Board), Room No. 110-A, Rail Bhawan, New Delhi-110001

Last date for receipt of applications is 05:00 PM. on 11.09.2020.

NORTHERN RAILWAY

प्रवानाचार्य, लाठलाठराठरमाठ मेक्किल कालेज, मेरठ

Head (Personnel) WAPCOS Limited

(A Government of India Undertaking)

Title & No. Of Posts Location

रेल विकास निगम लिमिटेड Rail Vikas Nigam Limited गुणवता, गति एवं पारवर्जित (A Covernment of India Enterprise)

System centralists to 5 years and beyond depending on Opportune of the Common Com

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पसोंनेल सिलेक्शन Security County and the security of the securi ispre असोमारं को , क पर पर्मामा रहता है पता Authorised Website: www.lbps.in In case of queries / complaints please log in to http://cgrs.ibps.in/

COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS/ MANAGEMENT TRAINESS IN PARTICIPATING ORGANISATIONS (CRP PO/MT.X for Vacancies of 2021-22)

The online examination (Preliminary and Main) for the next Common Recruitment Process for selection of personnel for Probationary Officer/ Management Trainee posts in the Participating Organisations is tentatively scheduled in October (November 2020.

The tentative schedule of events is as follows:

Activity	Tentative Dates
On-line registration including Edit/Modification of Application by candidates	05.08.2020 to 26.08.2020
Payment of Application Fees/Intimation Charges (Online) ,	05.08.2020 to 26.08.2020
Download of call letters for Pre- Exam Training*	September 2020
Conduct of Pre-Exam Training *	21.09.2020 to 26.09.2020
Download of call letters for Online examination – Preliminary	October 2020
Online Examination – Preliminary	03.10.2020, 10.10.2020 and 11.10.2020
Result of Online exam – Preliminary	October/ November 2020
Download of Call letter for Online exam – Main	November 2020
Online Examination - Main	28.11.2020
Declaration of Result - Main	December 2020
Download of call letters for interview	January 2021
Conduct of interview	January / February 2021
Provisional Allotment	April 2021
*In case it is possible and safe to hold PET	

For more great jobs, log on to www.shine.com

ICAI REGISTERED VALUERS ORGANISATION Recruitment of Managing Director

ne ICAI Registered Valuers Organisation (ICAI RVO), is a subsidiary or le Institute of the Chartered Accountants of India and is registered as a section 8 Company to enrol and regulate Registered Valuers as its embers in accordance with the Companies (Registered Valuers and sudustion) Rules, 2017 and functions incidental thereto.

ICAI RVO invites ONLINE applications from competent professionals for the following position on contract basis:

final. Please visit the website of ICAI RVO at https://icairvo.in/ Eligible persons desirous of taking up this assignment should indicate the position applied for and submit their online applications: C. athorised Signatory, ICAI Registered Valuers Organisation. email: "rov.ceruliment@icai.in" Last Date for Submission: 27-August-2020
Please Note: Those who have already applied in response to the earlier advertisements need not apply again.



15 years experience in HCV automobile dealership experience in Sales, with minimum 10 years as head of Sales 15 years experience in automobile dealership exeprience in Service, with minimum 10 years as head of Service Assument of North-East India

ABUTANI VAAHAN PVT LTD (Authorised Dealer of Daimler India Commercial Vehicles) SONAPUR, KAMRUP(M), ASSAM E-mail: info@butanitrucking.com, sunny@abutanitrucking.com csviveksharma@gmail.com, Ph: 94351-90284, 9854363544



कार्यालय प्रधानाचार्य, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ। संख्याः पा.सा./2020/6661 **ई—निविदाः सूचना (अल्पकालीन)** वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के माइक्रोबार विमाग के लिए निम्नलिखित उपकरणों के क्रय हेतु दो बिंड प्रणाली (तकनीर विता) के आधार पर निर्माता फर्मो/अधिकृत वितरकों से निम्न विवरणानुसार प्रकार के स्टिकिन

भवि	ारकार के ई–निविदा पोर्टल https://etender.up.nic.in के –निविदायें दिनांक 10.08.2020 से 24.08.2020 तक आमंत्रित व विष्य में ई–निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल गि उसे समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जायेगा।					
SI.	Name of Equipment	Quantit				
A.	Deep Freezer (-20 Degree Celsius) along with voltage stabilizer	01				
В.	Deep Freezer (-80 Degree Celsius) along with voltage stabilizer	01				
C.	Table top micro centrifuge with 2.0 ml tube	01				
D.	Table top micro centrifuge with PCR Microtiter Plate rotor	01				



SC rejects Bhushan's explanation in contempt case

Japnam Bindra japnam.b@livemint.com NEW DELHI

The Supreme Court on Monday refused to accept senior advocate Prashant Bhushan's explanation regretting his statement in a 2009 case alleging judicial "corruption" in an interview with Tehelba magazine and decided to continue contempt proceedings against him. The bench headed by Justice Ann Misbra soil it will exam Misbra soil it will exam

Arun Mishra said it will exam-ine whether his statement ine whether his statement prima facie amounted to con-tempt. The hearing will com-mence on 17 August. "We need to check whether the state-ments made regarding corrup-tion amounts to contempt of court. Thus we need to hear the matter," said the bench, which included Justices B.R. Gavai and Krishna Murari. Blushan had alleged that balfofthe 16 Gomerchie fusits."

halfofthe 16 former chief justi-ces of India were corrupt. The court has decided to hear the case in detail and ascertain case in detail and ascertain whether or not any comment alleging corruption by judges would per se amount to contempt. Advocate Shanti Bhushan requested the apex court to list the matter when physical hearings resume, but Justice Mishra denied it. On 4 August the three-judge bench had reserved its order. "Evaluantion/anoloves whinti-

On August the three judge bench had reserved its order. "Explanation/apology submitted by Mr. Prashant Blusshan," Respondent No.1 and Mr. Tarun Tejpal/Respondent No.2, have not been received so far. In case we do not accept the explanation/apology, we will heart he matter. We reserve the corder, 'it had said. The top court had said that it was in favour of putting an end to the matter to protect the dignity of the court and is judges and had asked the parties to issue statements tendering their apologies. Senior advocate Rajees Dhawan, appearing for Prashant Blusshan, had pleaded that the court should not render any findings in the case before hearing the parties.

India is on course to have max covid cases: Experts

The covid-19 burden has shifted from hotspots in Maharashtra, Delhi to new states

alarmed by the surge in daily covid-19 cases, expecting India to top the list of countries

"India is the third most affected from covid-19 now, but with ed testing, it could en increased testing, it could emerge as the top country affected by the pandemic. While testing rates have increased by 240% since the beginning of July, covid positive cases have increased by almost 325%, said Himanshu Sikka, lead-health, IPE global, an international health-care development consultancy. While 80% cases are from Andhra Pradesh, Kamataka, Tamil Nadu Telanorana. West Beneal

Andhra Pradesh, Kamataka, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Delhi and Maharashtra, the burden has shifted from the earlier covid hotspots of Delhi and Mumbai. Average daily cases have increased to 65,000 from 55,000-60,000 illulast week, with the total count on Tuesday reaching 2.235,677; including more than 44,700 deaths.

"This is an alarming trend and

"This is an alarming trend and strengthens the findings of the

strengthens the findings of the numerous studies suggesting that with increased testing, India could very well emerge as the top country affected by the pandemic, coid-case with the coid of the coid

for covid-19 stands at 4.6%, surpas-sing Delhi's (0.8%) and Maharash

sing Delhi's (0.8%) and Maharashira's (2.4%) growth. The national average of daily growth for covid-19 cases is around 3.25%.

"There is a shift in the epicentres of covid cases in the past one month with Andhra Pradesh and Karnataka having maximum growth rate,



A health worker collects a swab sample from a child at a makeshift navirus testing booth in Hyderab

while Delhi is faring much better," said Dr Suneela Garg, director pro-fessor, department of community medicine, Maulana Azad Medical College.

College.

In fact, the pandemic continues o spread and infect all sections of society, from politicians to the entertainment world. On Tuesday, former President Pranab Mukher-jee, 84, said on Twitter that he tested positive for covid-19 while on

ing remains the recovery rate. India on Tuesday recorded 1,552,545 covid-19 recoveries, witnessing the highest single-day count of 54,859, with a recovery rate of nearly 70% and a case fatality rate of 2%. "India has so far been successful in keeping the fatality rates low and the recovery rates high. However, with the surprise profession of the control of the con

with the opening up of the econ-omy, the pandemic is penetrating deeper in the country, and the situ-

THE national average of daily growth of covid cases is 3.5%; case fatality rate is 2%

UPWARD TRAJECTORY

ANDHRA has been recording more than 10,000 covid cases every day for the past five days THE average daily covid-19 cases have increased to 65,000 from 55,000-60,000 till last week

a hospital visit, "On a visit to the

hospital for a separate procedure, I have tested positive for covid-19

have tested positive for covid-19 today. I request the people who came in contact with me in the last week, to please self isolate and get tested for covid-19. #CitizenMuk-herjee," he tweeted. However, despite all the gloom around the pandemic, the silver lin-

CHANDIGARH'S

ation could soon deteriorate furation Could soon deteriorate in-ther," said Sikka. So far, the covid-19 hotspots were concentrated in bigger cities, such as Mumbai, Ahmadabad and Delhi, which could control and handle the situation due to better health infra-

structure.
"But as the economy opens up, and the pandemic penetrates tier?

INDIA 2,235,677 44,703

638,429 GLOBAL 19,902,316

2,137,202 7,033,121

and 3 cities and rural hinterlands, the situation could soon deteriorate with weak health systems not being able to cater to the pressures posed by the pandemic, especially in states like Bihar and Uttar Pradesh, "said Sikka.

India has accelerated its testing and tracing infrastructure, but much more was required. Innovations for mass testing and screening protocols need quick adoption and

ions for mass testing and screening ortocols need quick adoption and scale-up, he said.

While India continues to deny the onset of community transmission, community transmission, community medicine experts said prevention measures must be practised to limit the spread of the virus.

"If community transmis-sion begins to occur, isolation and sion begins to occur, isolation and quarantine will have limited or no role to play," said Garg, adding that community-driven social changes will then play an important role in containing the spread of covid-19, such as wearing masks, washing hands regularly and maintaining hands regularly and maintaining social distancing. Lockdowns in specific clusters will be required.

India's import licence needs will ensure fair, equitable trade: Goyal

Trade minister Piyush
Goyal on Monday
addressedthe concerns of
companies and countries
opposing the mandatory licensing requirements for importing
products, such as automobile
tyres and television sets, saying
that the government is trying to
ensure fair and reciprocal trade
practices with partner countries. Following criticism that
the government is adopting
protectionist measures similar
protectionist measures similar. protectionist measures similar to the license raj era, Goyal said such criticism shocks him as trade is not being carried out

among equals.
"What we are trying to do is
make sure our domestic indusmake sure our domestic indus-try gets a fair play. How can it be that one country does not allow that one country does not allow tyres to be exported to them, but wants free imports of tyres into India? There has to be equal, fair and reciprocal arrangement. If other countries are desirous of the 1.3-billion Indian market

omer coulines are estation the 13-billion Indian market opportunity, they will also have to give our businesses equal publication of the proportion of the p

imported such tyres worth \$370 million, with China (\$93 million) and Thailand (\$95 million) contributing a bulk of the imports. On 22 July, *Mint* reported that German automakers had urged its envoy to India to address issues of tyre



ruptions. Subsequently, Ger-man embassy officials had met the government for a solution.

Hinting towards Germany's objection, Goyal said he was objection, Goyan said ne who amazed that some countries in Europe are complaining about technical standards on tyres in India. "I can list out 5,000 items on which technical standards are being put in their countries. Why should India not have the right to put technical standards? It is important that all those who are opposing the efforts of the

Multinational cos which invested in India can't claim the right to import in an unbridled

(Ficci).

On 12 June, India had included import of new pneumatic tyres under a restricted list, to limit imports, especially from China. In FY20, India had imported such tyres worth \$370.

are opposing the efforts of the Indian government on our actionsshould first talk to their own one to import the import the indial expensival before they comments and make sure their opportunities are indian equitable access wal

before they plain about India, he added. Goyal said multinationa

Goyal said multinational companies which invested in India can't claim the right to import in an unbridled manner. 'I fail to understand how that can be a matter of right. If they want to engage with the Indian market, I believe they should look at indigenising, particularly those items that India has larly those items that India has capabilities for. We don't get capabilities for. We don't get excited only by an investment which is brought into India to capture the Indian market, to save some import duties on fin-ished product, and come to India only to assemble those products," Goyal added.

SAIF Partners boosts investments despite coronavirus impact

BENGALURU

Venture capital fund SAIF Partners has doubled down on investments in India in the last seven months, and seeks to tap into new segments including edtech, healthteech enterprise software-as-a-service (SaaS), entertainment platforms and direct-to-consumer startups. SAIF's recept investments

SAIF's recent investments include fintech startup Jodo, which provides education loans for middle-income loans for middl households, and enterprise SaaS startup Zomen-tum. It has also backed several unicorns and large ventures

there is structural impact, like travel. we have taken a pause, says SAIF Partners' Deepak large ventures including Rivigo, Swiggy, Paytm, MakeMyTrip Bookmyshow

and Sharechat, and has closed 15 deals in 2020, 13 of which

15 deals in 2020, 13 of which were early-stage startups. With the pandemic present-ing new opportunities, SAIF Partners said it has not changed its investment thesis and continues to back early-stage startups providing solu-tions for newer opportunities emerging from covid-19, in a hid to early them early. You bid to catch them early. "Our confidence is just growing, since startups are also becom-ing more resilient and working towards building for the new opportunity, which the pandemic has posed and improv-ing financial efficiencies," Deepak Gaur, partner, SAIF Partners, said in an interview.

"For sectors where there is structural impact, like travel, and are against the tide, we

and are against the tide, we have taken a pause, and are struggling to find conviction to invest in these businesses. Same applies for businesses where there is high-discretionary spend, "he added. According to SAIF, startups are maintaining capital efficiency and improving unit economics, as uncertainty grows, leading to investors being bullish on their investments in such companies. ments in such companies However, this positive senti ment remains concentrated

For sectors where around early stage investing. "Since there is distancing, digiti-zation is no longer a discre-tion or choice but has become

mandatory, and that has led to a fundamental fundamental change in the trajectory of sev-eral businesses. We have seen the tailwinds in sectors includ-ing gaming, education, espe-cially the test preparation space; remote diagnostics and telemedicine. There is further digitization in Indian small-and medium-enterprise space through digital customer rela-tionshin manazement tools. tionship management tools retail analytics or digitizing

ordering systems," Gaur said While investors continue to be upbeat about early-stage be uppeat about earry-stage startups, for late-stage, the realities are different, as VC funds operating in this space are expected to be even more selective in the coming months.



					(< in Grore
s.	Particulars	Quarter ended			Year ended
No.		30-06-2020	31-03-2020	30-06-2019	31-03-2020
		(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1.	Revenue from operations	9457.40	10148.26	9179.63	37743.54
2.	Profit before Exceptional Items and tax (including Regulatory Deferral Account Balances (net of tax))	3981.38	4333.15	3402.46	14590.15
3.	Profit before tax (including Regulatory Deferral Account Balances (net of tax))	2906.38	4333.15	3402.46	14590.15
4.	Profit after tax for the period before Regulatory Deferral Account Balances	1654.36	2337.73	2509.10	9376.00
5.	Profit after tax for the period	2048.42	3313.47	2502.80	11059.40
6.	Total Comprehensive Income comprising net Profit after Tax and Other Comprehensive Income	2056.02	3248.24	2489.39	10955.38
7.	Paid up Equity Share Capital (face value of share : ₹10/- each)	5231.59	5231.59	5231.59	5231.59
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance sheet				59463.76
9.	Earnings per equity share including movement in Regulatory Deferral Account Balances (Face value of ₹10/- each): Basic and Diluted (in ₹)	3.92	6.33	4.78	21.14
10.	Earnings per equity share excluding movement in Regulatory Deferral Account Balances (Face value of ₹10/- each): Basic and Diluted (in ₹)	3.16	4.47	4.80	17.92

	Value of CTO/ - each): basic and Diluted (in C)				i I
No	Notes				
1	Key Standalone Financial information		Quarter ended		Year ended
	Particulars	30-06-2020	31-03-2020	30-06-2019	31-03-2020
		(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
a)	Revenue from operations	8988.72	9704.47	8804.11	36185.54
b)	Profit before Exceptional Items and tax (including Regulatory Deferral Account Balances (net of tax))	3827.02	4285.03	3296.24	14330.75
c)	Profit before tax (including Regulatory Deferral Account Balances(net of tax))	2752.02	4285.03	3296.24	14330.75
d)	Profit after tax for the period before Regulatory Deferral Account Balances	1584.85	2206.92	2434.19	9127.78
e)	Profit after tax for the period	1978.91	3182.66	2427.89	10811.18
2	The above is an extract of the detailed format of Quarterly Consolidated and Standalone Financia	al Results filed with	the Stock Exchang	es under Regulation	ıs 33 of the SEBI

पावरगिड POWERGRID

Place : Gurugram Date : 10.08.2020

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)
Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016
Corporate Office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurugram-122001, (Haryana)
CIN: 1-401011-1893G

Juarteny consolusion s Section of BSE Lim

Important Notice: Members are requested to register/update their e-mail ID with Company/Depository participan Registrar & Transfer Agent (KFINTECH) which will be used for sending official documents through e-mail in future

Follow us on: 💟 🕇 🕒 in

(K.Sreekant) Chairman & Managing Director



Equities

LOCATION: Mumbai

Please visit "Careers" page in our website "www.southindianbank.com" for detailed notification and application procedure.

Place: New Delhi Date: 10th August, 2020

Petronet LNG Limited

GST: 07AAACP8148D1ZI

NOTICE given, pursuant to the Disclosure Requirement

CGM & VP-Company Secretary